

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 103]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 मार्च 2019—फाल्गुन 15, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019

क्र. 4064-71-इक्कीस-अ (प्रा.) अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4 मार्च, 2019 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५ सन् २०१९

मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, २०१९

[दिनांक ४ मार्च, २०१९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ६ मार्च, २०१९ को प्रथमबार प्रकाशित की गई].

वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने के लिये प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, २०१९ है.

वित्तीय वर्ष २०१९-२० के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ८,९४,३८,६५,६७,००० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये नवासी हजार चार सौ अड़तीस करोड़ पैंसठ लाख सड़सठ हजार मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से निकाली जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	५४,३०,२१,९६,०००	५४,३०,२१,९६,०००
	भारत विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	०	५९,२१,३३,६३,०००	५९,२१,३३,६३,०००
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	२,३८,०४,०८,०००	२८,७५,६०,०००	२,६६,७९,६८,०००
		पूंजी	३४,१०,४४,०००	०	३४,१०,४४,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	३२,७०,८६,०००	०	३२,७०,८६,०००
०३.	पुलिस	राजस्व	२७,२५,४१,८८,०००	६०,८०,०००	२७,२६,०२,६८,०००
		पूंजी	२,८४,८०,६६,०००	०	२,८४,८०,६६,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	३०,९६,४७,०००	०	३०,९६,४७,०००
		पूंजी	२०,००,०००	०	२०,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०५.	जेल	राजस्व १,६५,७८,४१,००० पूंजी ८,२६,८०,०००	० ०	१,६५,७८,४१,००० ८,२६,८०,०००
०६.	वित्त	राजस्व ५८,३५,०२,६२,००० पूंजी ७६,२८,०३,०००	१०,१०,५४,००० ०	५८,४५,१३,१६,००० ७६,२८,०३,०००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व १०,८१,३९,७९,०००	०	१०,८१,३९,७९,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व ७,५०,१२,५५,००० पूंजी ५२,८०,०३,०००	८३,४१,००० ०	७,५०,९५,९६,००० ५२,८०,०३,०००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व २३,२४,७३,००० पूंजी ३,६०,००,०००	० ०	२३,२४,७३,००० ३,६०,००,०००
१०.	वन	राजस्व ७,५४,९५,७०,००० पूंजी २,६१,५६,२७,०००	३६,००,००० ०	७,५५,३१,७०,००० २,६१,५६,२७,०००
११.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	राजस्व ९३,१०,९६,००० पूंजी २,५१,०९,६४,०००	० ०	९३,१०,९६,००० २,५१,०९,६४,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व ४९,४१,०९,०५,००० पूंजी १०,७९,२६,८१,०००	२,८८,८०,००,००० ०	५२,२९,८९,०५,००० १०,७९,२६,८१,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व ६१,३६,७०,३२,००० पूंजी १,०००	८,००,००० ०	६१,३६,७८,३२,००० १,०००
१४.	पशुपालन	राजस्व ४,६८,४०,९६,००० पूंजी ७,४०,०१,०००	४,००,००० ०	४,६८,४४,९६,००० ७,४०,०१,०००
१५.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	राजस्व २,०००	०	२,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
१६. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राजस्व	३८,१८,३०,०००	०	३८,१८,३०,०००
	पूंजी	४६,००,०००	०	४६,००,०००
१७. सहकारिता	राजस्व	३,०८,६६,५६,०००	०	३,०८,६६,५६,०००
	पूंजी	८,५६,२५,८२,०००	०	८,५६,२५,८२,०००
१८. श्रम	राजस्व	३,७०,६७,८८,०००	१,०५,०००	३,७०,६८,९३,०००
१९. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	२५,८८,६६,६८,०००	१०,००,०००	२५,८८,७६,६८,०००
	पूंजी	१,१२,७२,४५,०००	०	१,१२,७२,४५,०००
२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	२,१९,२८,८१,०००	४०,००,०००	२,१९,६८,८१,०००
	पूंजी	१०,८१,९५,७५,०००	०	१०,८१,९५,७५,०००
२१. लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	३२,३६,४१,०००	०	३२,३६,४१,०००
	पूंजी	८०,००,०००	०	८०,००,०००
२२. नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	२३,९४,९०,७२,०००	२०,००,०००	२३,९५,१०,७२,०००
	पूंजी	५,२७,५०,९५,०००	६,००,००,०००	५,३३,५०,९५,०००
२३. जल संसाधन	राजस्व	४,०१,४९,१५,०००	०	४,०१,४९,१५,०००
	पूंजी	२१,६०,६६,५३,०००	४४,००,०००	२१,६१,१०,५३,०००
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	५,०५,९४,३९,०००	०	५,०५,९४,३९,०००
	पूंजी	२६,७१,८७,६७,०००	१,२०,००,००,०००	२७,९१,८७,६७,०००
२५. खनिज साधन	राजस्व	१८,४७,६८,०००	१,३०,०२,००,०००	१,४८,४९,६८,०००
	पूंजी	३,४०,००,०००	०	३,४०,००,०००
२६. संस्कृति	राजस्व	७४,८७,६०,०००	४०,०००	७४,८८,००,०००
	पूंजी	१९,०८,०३,०००	०	१९,०८,०३,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
२७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	५९,६३,९८,४२,०००	०	५९,६३,९८,४२,०००
	पूंजी	१,६५,७२,०८,०००	०	१,६५,७२,०८,०००
२८. राज्य विधान मंडल	राजस्व	३९,११,५६,०००	२४,९०,०००	३९,३६,४६,०००
२९. विधि और विधायी कार्य	राजस्व	५,९८,१६,०४,०००	७१,२५,९५,०००	६,६९,४१,९९,०००
	पूंजी	६८,४४,००,०००	०	६८,४४,००,०००
३०. ग्रामीण विकास	राजस्व	४,४६,१७,०४,०००	०	४,४६,१७,०४,०००
	पूंजी	९,९५,००,०५,०००	०	९,९५,००,०५,०००
३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	३३,२८,५५,०००	०	३३,२८,५५,०००
	पूंजी	६०,६८,००,०००	०	६०,६८,००,०००
३२. जनसंपर्क	राजस्व	१,५५,२६,००,०००	४,०००	१,५५,२६,०४,०००
	पूंजी	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
३३. जनजातीय कार्य	राजस्व	२४,२७,९२,१७,०००	२,२०,०००	२४,२७,९४,३७,०००
	पूंजी	४,९१,८०,०१,०००	०	४,९१,८०,०१,०००
३४. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण.	राजस्व	४,३२,८५,६६,०००	०	४,३२,८५,६६,०००
३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राजस्व	३,०१,१८,६२,०००	०	३,०१,१८,६२,०००
	पूंजी	३३,४०,०४,०००	०	३३,४०,०४,०००
३६. परिवहन	राजस्व	३६,६९,३६,०००	०	३६,६९,३६,०००
	पूंजी	८,००,०१,०००	०	८,००,०१,०००
३७. पर्यटन	राजस्व	५३,२६,०६,०००	०	५३,२६,०६,०००
	पूंजी	३२,४०,०२,०००	०	३२,४०,०२,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
३८.	आयुष	राजस्व पूंजी	१,८४,१२,८४,००० ९,२८,०१,०००	४,००,००० ०	१,८४,१६,८४,००० ९,२८,०१,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व पूंजी	६,७०,७०,१७,००० १,१६,०५,०००	४४,००० ०	६,७०,७०,६१,००० १,१६,०५,०००
४०.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व पूंजी	१२,५९,११,४२,००० १,४५,५०,३९,०००	१२,००,००० ०	१२,५९,२३,४२,००० १,४५,५०,३९,०००
४१.	सिंहस्थ २०१६ से संबंधित व्यय	राजस्व	१,०००	०	१,०००
४२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	राजस्व पूंजी	४७,५८,९१,००० ७,५९,६२,०००	१,००० ०	४७,५८,९२,००० ७,५९,६२,०००
४३.	खेल और युवक कल्याण	राजस्व पूंजी	६१,५१,२९,००० २३,६३,७४,०००	२,००,००० ०	६१,५३,२९,००० २३,६३,७४,०००
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व पूंजी	७,७५,२२,७२,००० १,७२,३४,४२,०००	४,००,००० ०	७,७५,२६,७२,००० १,७२,३४,४२,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व पूंजी	७६,४१,३०,००० ८६,४५,३९,०००	० ४,००,०००	७६,४१,३०,००० ८६,४९,३९,०००
४६.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राजस्व पूंजी	८०,५८,२२,००० २४,४०,०२,०००	० ०	८०,५८,२२,००० २४,४०,०२,०००
४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	राजस्व पूंजी	५,३०,९३,२५,००० १,३८,८०,०३,०००	० ०	५,३०,९३,२५,००० १,३८,८०,०३,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
४८.	नर्मदा घाटी विकास	राजस्व ७,३१,३१,००० पूंजी १३,९९,६३,४८,०००	० १४,००,०००	७,३१,३१,००० १३,९९,७७,४८,०००
४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व ४,७७,६१,६९,००० पूंजी ६७,७६,०४,०००	४,००,००० ०	४,७७,६५,६९,००० ६७,७६,०४,०००
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व ३,०१,०५,७७,०००	०	३,०१,०५,७७,०००
५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व ३६,३३,४६,००० पूंजी ४,००,००,०००	२०,००० ०	३६,३३,६६,००० ४,००,००,०००
५२.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व ५,३७,८९,४८,००० पूंजी ३,८५,१६,३०,०००	० ०	५,३७,८९,४८,००० ३,८५,१६,३०,०००
५३.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व ९८,७३,९४,०४,००० पूंजी ५४,७२,०१,००	० ०	९८,७३,९४,०४,००० ५४,७२,०१,००
५४.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व ६५,५५,२४,०००	०	६५,५५,२४,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व २०,२७,८०,०४,००० पूंजी ५२,२०,८५,०००	६,००,००० ०	२०,२७,८६,०४,००० ५२,२०,८५,०००
५६.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राजस्व ८१,०१,२३,००० पूंजी ८०,५६,०००	० ०	८१,०१,२३,००० ८०,५६,०००
५७.	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी १,०००	०	१,०००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व ८,२३,०६,०९,००० पूंजी १,२०,००,०००	० ०	८,२३,०६,०९,००० १,२०,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
५९.	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
	पूंजी	५,६०,००,००,०००	०	५,६०,००,००,०००
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय.			
	राजस्व	१७,८६,००,०००	०	१७,८६,००,०००
	पूंजी	१,२२,७२,९६,०००	०	१,२२,७२,९६,०००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय			
	राजस्व	१,०९,२८,०००	०	१,०९,२८,०००
	पूंजी	१०,०००	०	१०,०००
६२.	पंचायत			
	राजस्व	८४,६१,८५,०००	०	८४,६१,८५,०००
६३.	अल्प संख्यक कल्याण			
	राजस्व	९,४३,४०,०००	०	९,४३,४०,०००
	पूंजी	२,४०,००,०००	०	२,४०,००,०००
६४.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता			
	राजस्व	२९,७३,५९,०२,०००	२,४०,८६,८०,०००	३२,१४,४५,८२,०००
	पूंजी	२२,८६,९२,०००	०	२२,८६,९२,०००
६५.	विमानन			
	राजस्व	१३,७६,५८,०००	०	१३,७६,५८,०००
	पूंजी	२०,०२,०००	०	२०,०२,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण			
	राजस्व	३,१२,८६,८८,०००	०	३,१२,८६,८८,०००
	पूंजी	१०,६९,६२,०००	०	१०,६९,६२,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य—भवन			
	राजस्व	२,७४,७७,८४,०००	१,२०,००,०००	२,७५,९७,८४,०००
	पूंजी	७०,८४,०३,०००	०	७०,८४,०३,०००
६८.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा			
	राजस्व	१,१८,९३,३८,०००	०	१,१८,९३,३८,०००
६९.	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण			
	राजस्व	११,१७,५१,०००	०	११,१७,५१,०००
	पूंजी	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
७०. प्रवासी भारतीय	राजस्व	४०,००,०००	०	४०,००,०००
७१. पर्यावरण	राजस्व	१४,१४,७६,०००	०	१४,१४,७६,०००
	पूंजी	४०,००,०००	०	४०,००,०००
७२. आनंद	राजस्व	२,०००	०	२,०००
योग	राजस्व :	६,२४,६८,८७,०६,०००	६२,०४,४६,३०,०००	६,८६,७३,३३,३६,०००
	पूंजी :	१,४७,१७,३६,६८,०००	६०,४७,९५,६३,०००	२,०७,६५,३२,३१,०००
वृहद्-योग :		७,७१,८६,२३,७४,०००	१,२२,५२,४१,९३,०००	८,९४,३८,६५,६७,०००

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019

क्र. 4064-71-इक्कीस-अ (प्रा.) अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 5 OF 2019

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) ACT, 2019

[Received the assent of the Governor on the 4th March 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th March, 2019].

An Act to authorise for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2019-2020.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 2019. **Short title.**

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of rupees Eighty nine thousand four hundred thirty eight crore sixty five lakh sixty seven thousand only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2019-2020 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Issue of Rs. 8,94,38,65,67,000 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2019-2020.

Appropriation.

3. The sum authorised to be withdrawal from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
..	Charged Appropriation-Interest Payments and Servicing of Debt.	Revenue	0	54,30,21,96,000	54,30,21,96,000
..	Charged Appropriation-Public Debt.	Capital	0	59,21,33,63,000	59,21,33,63,000
01.	General Administration	Revenue	2,38,04,08,000	28,75,60,000	2,66,79,68,000
		Capital	34,10,44,000	0	34,10,44,000
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department	Revenue	32,70,86,000	0	32,70,86,000
03.	Police	Revenue	27,25,41,88,000	60,80,000	27,26,02,68,000
		Capital	2,84,80,66,000	0	2,84,80,66,000
04	Other Expenditure pertaining to Home Department.	Revenue	30,96,47,000	0	30,96,47,000
		Capital	20,00,000	0	20,00,000
05	Jail	Revenue	1,65,78,41,000	0	1,65,78,41,000
		Capital	8,26,80,000	0	8,26,80,000
06.	Finance	Revenue	58,35,02,62,000	10,10,54,000	58,45,13,16,000
		Capital	76,28,03,000	0	76,28,03,000

(1)	(2)	(3)	
		Rs.	Rs.
07. Commercial Tax	Revenue	10,81,39,79,000	0
			10,81,39,79,000
08. Land Revenue and District Administration	Revenue	7,50,12,55,000	83,41,000
	Capital	52,80,03,000	0
			7,50,95,96,000
09. Expenditure pertaining to Revenue Department	Revenue	23,24,73,000	0
	Capital	3,60,00,000	0
			23,24,73,000
10. Forest	Revenue	7,54,95,70,000	36,00,000
	Capital	2,61,56,27,000	0
			7,55,31,70,000
11. Industrial Policy and Investment Promotion	Revenue	93,10,96,000	0
	Capital	2,51,09,64,000	0
			2,51,09,64,000
12. Energy	Revenue	49,41,09,05,000	2,88,80,00,000
	Capital	10,79,26,81,000	0
			52,29,89,05,000
13. Farmer Welfare and Agriculture Development	Revenue	61,36,70,32,000	8,00,000
	Capital	1,000	0
			61,36,78,32,000
14. Animal Husbandry	Revenue	4,68,40,96,000	4,00,000
	Capital	7,40,01,000	0
			4,68,44,96,000
15. Externally Aided Projects pertaining to Technical Education and Training Department.	Revenue	2,000	0
			2,000
16. Fisherman Welfare and Fisheries Development.	Revenue	38,18,30,000	0
	Capital	46,00,000	0
			38,18,30,000
17. Co-operation	Revenue	3,08,66,56,000	0
	Capital	8,56,25,82,000	0
			8,56,25,82,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
18.	Labour	Revenue	3,70,67,88,000	1,05,000	3,70,68,93,000
19.	Public Health and Family Welfare	Revenue	25,88,66,68,000	10,00,000	25,88,76,68,000
		Capital	1,12,72,45,000	0	1,12,72,45,000
20.	Public Health Engineering	Revenue	2,19,28,81,000	40,00,000	2,19,68,81,000
		Capital	10,81,95,75,000	0	10,81,95,75,000
21.	Public Service Management.	Revenue	32,36,41,000	0	32,36,41,000
		Capital	80,00,000	0	80,00,000
22.	Urban Development and Housing.	Revenue	23,94,90,72,000	20,00,000	23,95,10,72,000
		Capital	5,27,50,95,000	6,00,00,000	5,33,50,95,000
23.	Water Resources Department	Revenue	4,01,49,15,000	0	4,01,49,15,000
		Capital	21,60,66,53,000	44,00,000	21,61,10,53,000
24.	Public Works—Roads and Bridges	Revenue	5,05,94,39,000	0	5,05,94,39,000
		Capital	26,71,87,67,000	1,20,00,00,000	27,91,87,67,000
25.	Mineral Resources	Revenue	18,47,68,000	1,30,02,00,000	1,48,49,68,000
		Capital	3,40,00,000	0	3,40,00,000
26.	Culture	Revenue	74,87,60,000	40,000	74,88,00,000
		Capital	19,08,03,000	0	19,08,03,000
27.	School Education (Primary Education)	Revenue	59,63,98,42,000	0	59,63,98,42,000
		Capital	1,65,72,08,000	0	1,65,72,08,000
28.	State Legislature	Revenue	39,11,56,000	24,90,000	39,36,46,000
29.	Law and Legislative Affairs	Revenue	5,98,16,04,000	71,25,95,000	6,69,41,99,000
		Capital	68,44,00,000	0	68,44,00,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
30.	Rural Development	Revenue	4,46,17,04,000	0	4,46,17,04,000
		Capital	9,95,00,05,000	0	9,95,00,05,000
31.	Planning Economics and Statistics.	Revenue	33,28,55,000	0	33,28,55,000
		Capital	60,68,00,000	0	60,68,00,000
32.	Public Relations	Revenue	1,55,26,00,000	4,000	1,55,26,04,000
		Capital	1,00,00,000	0	1,00,00,000
33.	Tribal Affairs	Revenue	24,27,92,17,000	2,20,000	24,27,94,37,000
		Capital	4,91,80,01,000	0	4,91,80,01,000
34.	Social Justice and disabled Person Welfare	Revenue	4,32,85,66,000	0	4,32,85,66,000
35.	Micro, Small & Medium Enterprises.	Revenue	3,01,18,62,000	0	3,01,18,62,000
		Capital	33,40,04,000	0	33,40,04,000
36.	Transport	Revenue	36,69,36,000	0	36,69,36,000
		Capital	8,00,01,000	0	8,00,01,000
37.	Tourism	Revenue	53,26,06,000	0	53,26,06,000
		Capital	32,40,02,000	0	32,40,02,000
38.	Ayush	Revenue	1,84,12,84,000	4,00,000	1,84,16,84,000
		Capital	9,28,01,000	0	9,28,01,000
39.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	6,70,70,17,000	44,000	6,70,70,61,000
		Capital	1,16,05,000	0	1,16,05,000
40.	Other expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)	Revenue	12,59,11,42,000	12,00,000	12,59,23,42,000
		Capital	1,45,50,39,000	0	1,45,50,39,000
41.	Expenditure pertaining to Simhast, 2016.	Revenue	1,000	0	1,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
42.	Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation	Revenue	47,58,91,000	1,000	47,58,92,000
		Capital	7,59,62,000	0	7,59,62,000
43.	Sports and Youth Welfare.	Revenue	61,51,29,000	2,00,000	61,53,29,000
		Capital	23,63,74,000	0	23,63,74,000
44.	Higher Education	Revenue	7,75,22,72,000	4,00,000	7,75,26,72,000
		Capital	1,72,34,42,000	0	1,72,34,42,000
45.	Minor Irrigation Works	Revenue	76,41,30,000	0	76,41,30,000
		Capital	86,45,39,000	4,00,000	86,49,39,000
46.	Science and Technology	Revenue	80,58,22,000	0	80,58,22,000
		Capital	24,40,02,000	0	24,40,02,000
47.	Technical Education Skill Development and Employment.	Revenue	5,30,93,25,000	0	5,30,93,25,000
		Capital	1,38,80,03,000	0	1,38,80,03,000
48.	Narmada Valley Development	Revenue	7,31,31,000	0	7,31,31,000
		Capital	13,99,63,48,000	14,00,000	13,99,77,48,000
49.	Scheduled Caste Welfare	Revenue	4,77,61,69,000	4,00,000	4,77,65,69,000
		Capital	67,76,04,000	0	67,76,04,000
50.	Horticulture and Food Processing	Revenue	3,01,05,77,000	0	3,01,05,77,000
51.	Religious Trusts and Endowments.	Revenue	36,33,46,000	20,000	36,33,66,000
		Capital	4,00,00,000	0	4,00,00,000
52.	Medical Education	Revenue	5,37,89,48,000	0	5,37,89,48,000
		Capital	3,85,16,30,000	0	3,85,16,30,000

(1)	(2)	(3)	
		Rs.	Rs.
53.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions		
	Revenue	98,73,94,04,000	0
	Capital	54,72,01,000	0
			98,73,94,04,000
			54,72,01,000
54.	Agricultural Research and Education.		
	Revenue	65,55,24,000	0
			65,55,24,000
55.	Women and Child Development		
	Revenue	20,27,80,04,000	6,00,000
	Capital	52,20,85,000	0
			20,27,86,04,000
			52,20,85,000
56.	Cottage and Rural Industry.		
	Revenue	81,01,23,000	0
	Capital	80,56,000	0
			81,01,23,000
			80,56,000
57.	Externally Aided Projects pertaining to Water Resources Department		
	Capital	1,000	0
			1,000
58.	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity		
	Revenue	8,23,06,09,000	0
	Capital	1,20,00,000	0
			8,23,06,09,000
			1,20,00,000
59.	Externally aided Projects pertaining to Rural Development Department		
	Capital	5,60,00,00,000	0
			5,60,00,00,000
60.	Expenditure pertaining to District Plan Schemes.		
	Revenue	17,86,00,000	0
	Capital	1,22,72,96,000	0
			17,86,00,000
			1,22,72,96,000
61.	Expenditure pertaining to Bundelkhand package		
	Revenue	1,09,28,000	0
	Capital	10,000	0
			1,09,28,000
			10,000
62.	Panchayat		
	Revenue	84,61,85,000	0
			84,61,85,000
63.	Minority Welfare		
	Revenue	9,43,40,000	0
	Capital	2,40,00,000	0
			9,43,40,000
			2,40,00,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
64.	Financial assistance to Urban bodies	Revenue 29,73,59,02,000 Capital 22,86,92,000	2,40,86,80,000 0	32,14,45,82,000 22,86,92,000
65.	Aviation	Revenue 13,76,58,000 Capital 20,02,000	0 0	13,76,58,000 20,02,000
66.	Welfare of Backward Classes.	Revenue 3,12,86,88,000 Capital 10,69,62,000	0 0	3,12,86,88,000 10,69,62,000
67.	Public Works-Buildings	Revenue 2,74,77,84,000 Capital 70,84,03,000	1,20,00,000 0	2,75,97,84,000 70,84,03,000
68.	New and Renewable Energy.	Revenue 1,18,93,38,000	0	1,18,93,38,000
69.	Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribe Welfare.	Revenue 11,17,51,000 Capital 2,00,00,000	0 0	11,17,51,000 2,00,00,000
70.	Overseas Indian	Revenue 40,00,000	0	40,00,000
71.	Environment	Revenue 14,14,76,000 Capital 40,00,000	0 0	14,14,76,000 40,00,000
72.	Happiness	Revenue 2,000	0	2,000
Total		Revenue — 6,24,68,87,06,000	62,04,46,30,000	6,86,73,33,36,000
		Capital — 1,47,17,36,68,000	60,47,95,63,000	2,07,65,32,31,000
Grand Total		— 7,71,86,23,74,000	1,22,52,41,93,000	8,94,38,65,67,000